NEW DAWN

Ireland abolishes abortion laws in 'quiet revolution'

REUTERS Dublin, May 26

IRELAND HAS VOTED by a landslide to liberalise some of the world's most restrictive abortion laws in what its prime minister described as the culmination of a "quiet revolution" in what was one of the most socially conservative countries in Europe.

Voters in the once deeply Catholic nation were estimated to have backed the change by more than two-to-one. The government plans to bring in legislation by the end of the year.

"It's incredible. For all the years and years and years we've been trying to look after women and not been able to look after women, this means everything," said Mary Higgins, obstetrician and Together For Yes campaigner.

After official results began to be announced on Saturday, politicians

A TEST MATCH between India and Sri

Lanka last year might have been played

on a pitch doctored at the behest of

match-fixers, a sting operation has

claimed, prompting the International

Cricket Council (ICC) to launch an

The *Al Jazeera* television network

claims that a well-known former

Mumbai first-class cricketer Robin

Morris, who is now allegedly a match-

fixer, admitted to his involvement in

bribing a groundsman at Galle last year

Sunday but snippets of it have been

posted online by the Qatar-based chan-

nel. Responding to the latest round of

sensational allegations with regards to

the integrity of the much-maligned

investigation working with anti-cor-

"We have already launched an

sport, the ICC said it is investigating.

The sting operation is to be aired on

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, May 26

on Saturday.

to alter the pitch.

Sting claims 'pitch fixed' in

India-SL Test; ICC starts probe

investigation into the matter undertake a full and comprehensive



abortion law, in Dublin, Ireland

on both sides agreed that the referendum had passed by a large margin. "The public have spoken. The result appears to be resounding in favour of repealing the 8th Amendment" constitutional ban on abortion, Prime Minister Leo Varadkar, who campaigned for repeal, told journalists in Dublin.

"What we see is the culmination of a quiet revolution that has been

ruption colleagues from member

countries based on the limited infor-

mation we have received," ICC GM (Anti

Corruption Unit) Alex Marshall said in

that all evidence and supporting mate-

rials relating to corruption in cricket is

released immediately to enable us to

Sri Lanka Cricket, on its part, said it

"Ashley De Silva, CEO of Sri Lanka

would cooperate with the ICC and reit-

erated its 'zero tolerance' policy on cor-

Cricket is in contact with the CEO of the

International Cricket Council Mr David

Richardson...and will take immediate

action against any person involved in

the alleged incident, if found guilty," the

is constantly engaged with the ICC and

is following its guidelines on how to

handle anti-corruption operations for

the forthcoming tours in Sri Lanka."

"In the meantime, Sri Lanka Cricket

SLC issued a statement.

"We have made repeated requests

a statement.

investigation."

ruption.

taking place in Ireland over the last couple of decades," said Varadk, who became the country's first openly gay prime minister last year.

If confirmed, the outcome will be the latest milestone on a path of change for a country which only legalised divorce by a razor thin majority in 1995 before becoming the first in the world to adopt gay marriage three years ago."

Pak Army summons ex-ISI head over his book with former RAW chief

PRESS TRUST OF INDIA Islamabad, May 26

PAKISTAN'S POWERFUL ARMY has summoned former ISI chief Asad

Durrani on May 28 to seek clarification over a book he co-authored with India's ex-spy chief AS Dulat, accusing him of 'violating' the military code of conduct. Lieutenant

General (retd) Durrani, who headed the Inter-Services Intelligence (ISI) agency from August 1990 till March 1992, along with Dulat has written The Spy Chronicles: RAW, ISI

and the Illusion of Peace. The book was released on Wednesday. The Pakistan Army in a statement said that Durrani was being called to General Headquarters on May 28.

QUANTUM BUILD-TECH LIMITED

Reg Office: 8-1-405/A/66, Dream Valley, Shaikpet, Hyderabad - 500 104 Tel: 040 23568766, Fax: 040 23568990, Website:www.guantumbuild.com E-mail: info@quantumbuild.com CIN:L72200TG1998PLC030071 EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

	QUARTE	YEAR ENDED				
Particulars	31-03-2018 (Audited)	31-03-2017 (Audited)	31-03-2018 (Audited)			
Total Income from Operations (Net)	201.95	36.12	289.81			
Net Profit /(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	97.78	(123.97)	139.40			
Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	97.78	72.11	45.28			
Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	94.63	72.11	42.09			
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	94.63	72.11	42.09			
Equity Share Capital	1261.56	1261.56	1261.56			
Earnings per share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations						
1.Basic and Diluted (Rs)	0.75	0.57	0.33			
The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and						

Year ended March31,2018 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2018 are available on the website of BSE (www.bseindia.com) and the Company's website (www.guantumbuild.com) By Order of the Board

For Quantum Build-Tech Limited

Place: Hyderabad Date: 26-05-2018 **G.**Satynarayana Managing Director DIN No.02051710

Regd. Off.: Lal Tappar Industrial Area, P.O. Resham Majri, Haridwar Road, Dehradun (Utt.) Ph.: 0135-2499234, Fax: 0135-2499235, Website: www.flexfoodsltd.com, Email: flexsec@vsnl.net

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2018 (₹ in Lacs) Year Ended Ended 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2018 31.12.2017 31.03.201 (Audited) (Audited) Unaudited) (Audited) (Audited) Total Income from Operations 2515 9352 1069 291 232 1123 Net Profit/(Loss) before tax 138 431 681 Net Profit/(Loss) after tax 177 785 659 Total Comprehensive income (comprising profit/(Loss) after 772 Equity share capital (Face Value ₹ 10/- each) 6650 6366 Other equity excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of as at 31st March 2018 Earnings Per share for the period (Face value of ₹10/-Basic 1.42 5.47 Diluted 1.42 3.46 5.47 1.11 6.31

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5th July 2016. The full format of the Quarterly & Year Ended 31st March 2018 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website

Segment reporting is not applicable as there is only one reporting segment.

Figures for previous year / period have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.

The Audit Committee has reviewed the financial results and the same have been subsequently approved by the Board of Directors at their meeting held on 26th May, 2018. The financial result have been audited by the statutory auditors of the For FLEX FOODS LIMITED

(Ashok Chaturvedi) Place: NOIDA Chairman Date: 26.05.2018 DIN - 00023452

(Rs. In Lakh)

OROSIL SMITHS INDIA LIMITED

(Registered Office: Flat No. 620, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019) Email: info@orosil.com, Website: www.orosil.com, CIN: L74899DL1994PLC059341

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

0.	Particulars	Quarter ended 31.03.2018 (Audited)	Corresponding 3 months ended in the previous year ending on 31.03.2017 (Audited)	Year ended 31.03.2018 (Audited)	Year ended 31.03.2017 (Audited)
	Total Income from Operations (net)	128.57	42.77	375.66	177.12
	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.09)	(8.00)	(3.13)	(28.02)
	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.09)	(8.00)	(3.13)	(28.02)
	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.09)	(8.00)	(3.13)	(28.02)
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(4.90)	(9.32)	(2.94)	(29.34)
	Equity Share Capital	413.16	413.16	413.16	413.16
	Earnings Per Share (Face value Rs. 1/- Each) (For Continuing and discontinued operations) Basic & Diluted	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.07)

is given below:

The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their respective meetings held on May 26, 2018. The Audit review of above Finacial Results has been carried out by the Statutory Auditors of the Company

These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. Ind AS has been made applicable to the Company with effect from 1st April 2017 and accordingly comparative figures for the corresponding period of the previous year have been

The reconciliation of financial results as previously reported in accordance with Indian GAAP and Ind AS is given Rs. in lacs

Particulars	Quarter ended 31.03.2017	Year ended 31.03.2017	
Net Profit as per I-GAAP	(8.00)	(28.02)	
Add/(Less): Adjustments in Profit and Loss	0.400000		
Effect of remeasurement of financial assets	(1.32)	(1.32)	
Total Comprehensive Income	(9.32)	(29.34)	

Particulars	As at 31.03.20		
quity as per previous GAAP	382.64		
djustments	-		
ffect of remeasurement of financial assets	(7.20)		
otal Equity under Ind AS	375.44		

and equipment and intangible assets as deemed cost as at the transition date

(vi) Pursuant to the approval of the shareholders of the Company vide their resolution dated 25th July 2017, the company has sub-divided 1 share having face value of Rs. 5/- each fully paid up into 5 shares having face value of Rs. 1/- each. Accordingly earning per share (EPS) for all the reported periods has been recalculated.

(vii) The above is an extract of detailed Financial Results for the quarter and yaer ended March 31, 2018 filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of Financial Results are available on the Stock Exchnage's website(www.bseindia.com) and on Company's website (www.orosil.com)

> On behalf of Board of Director For OROSIL SMITHS INDIA LIMITED

(B. K Narula) Managing Director DIN: 00003629

Development Reaching the Poor **Ensuring Better** Life for All









Desh Ka Badhta Jaata Vishwaas...



For more details visit 48months.mygov.in



All villages electrified. Now 4 crore households to get electricity.

Place: Noida

Date: May 26, 2018



3.8 crore families get smoke-free lives with Ujjwala.



Jan Dhan to Jan Suraksha: The poor get bank accounts and insurance cover.



More than 7.25 crore toilets constructed with the Swachh Bharat Revolution.



1 crore poor families get a home under PM Awas Yojana.



जावड़ेकर ने सफल विद्यार्थियों को दी बधाई

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली. 26 मई।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सीबीएसई की बारहवीं की परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को बधाई दी है और अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वालों को निराश न होने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सफल होने वाले विद्यार्थियों को बधाई देता हं। जो सफल नहीं हुए उन्हें अपनी शुभकामना देता हूं क्योंकि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह अस्थायी असफलता है। वे और प्रयास करेंगे और सफल होंगे। मंत्री ने कहा कि मैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के लिए बहुत खुश हूं।

हेल्पलाइन से ले सकते हैं मदद

सीबीएसई ने बारहवीं के परिणाम से जुड़े सवालों या संदेह पर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की मदद के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800118004 शुरू किया है। परीक्षा के परिणाम आने के बाद कुछ बच्चे तनाव में आ जाते हैं। ऐसी स्थित में उन्हें काउंसलिंग की जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने परिणाम आने से पहले ही हेल्पलाइन की शुरुआत कर दी है।

अळ्वलों में अळ्वल रहीं मेघना

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 26 मई।

सीबीएसई की ओर से शनिवार को जारी बारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में नोएडा की मेघना श्रीवास्तव को 500 में से 499 अंक मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि अभी तक सीबीएसई की कक्षा 12 में इतने अंक किसी को नहीं मिले हैं। हालांकि पिछले छह सालों के आंकड़ों में तो यह बात साबित भी होती है। 2012 के बाद से जितने भी विद्यार्थी अव्वल आए हैं, ये अंक उनके सबसे अधिक हैं। मेघना ने इतिहास, भुगोल, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र में सौ फीसद अंक प्राप्त किए हैं। उन्हें सिर्फ एक ही विषय अंग्रेजी कोर में 99 फीसद अंक मिले हैं। सीबीएसई के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास उपलब्ध रिकार्ड में अभी तक किसी भी छात्र को 500 में से 499 अंक नहीं मिले हैं।

साल 2017 में नोएडा एमिटी में पढ़ने वालीं रक्षा गोपाल 99.60 फीसद अंकों के साथ देश में अव्वल आई थीं। रक्षा को अंग्रेजी. राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में सौ फीसद अंक मिले थे जबिक इतिहास और मनोविज्ञान में उनके 99-99 अंक थे। साल 2016 में अशोक विहार स्थित मोंटफोर्ट स्कूल की सुकृति गुप्ता 99.40 फीसद अंकों के साथ शीर्ष पर रही



थीं। साल 2015 में दिल्ली स्थित साकेत के ग्रीनफील्ड स्कूल में पढ़ने वालीं एम. गायत्री 99.20 फीसद अंकों के साथ देश में अव्वल रही थीं। साल 2014 में दिल्ली पब्लिक स्कल वसंत कुंज के विद्यार्थी रहे सार्थक अग्रवाल 99.60 फीसद अंक हासिल कर पहले स्थान पर आए थे। साल 2013 में रोहिणी स्थित लेंसर कॉवेंट स्कूल से पढ़े पारस शर्मा 99.00 फीसद अंक लाकर शीर्ष पर रहे थे। इसी तरह साल 2012 में मणिपुर के मोहम्मद इस्मत 99.00 फीसद हासिल कर देश में अव्वल रहे थे।

90 और 95 फीसद से अधिक अक वाले बढे

सीबीएसई का कहना है कि इस बार विद्यार्थियों के जो अंक आए हैं, वे वास्तविक हैं। इस बार किसी भी तरह से अंक बढ़ाए नहीं गए हैं। कुछ विषयों में, जहां जरूरत थी, मॉडरेशन नीति को अपनाया गया। इस बार कुल 12737 विद्यार्थियों ने 95 फीसद व इससे अधिक अंक हासिल किए और 72599 विद्यार्थियों ने 90 फीसद व इससे अधिक अंक प्राप्त किए। जबकि पिछले साल 95 फीसद व उससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10091 थी और 90 फीसद व उससे ज्यादा अंक पाने वालों की संख्या 63247 थी।

दिव्यांग छात्रों में ए विजय गणेश रहे अव्वल

दिव्यांग छात्र श्रेणी में केरल के पल्लकड में रहने वाले ए विजय गणेश देशभर में अव्वल आए हैं। उन्होंने 98.40 फीसद अंक हासिल किए हैं। देहरादून की पूजा कुमारी 500 में से 489 अंक प्राप्त करके दूसरे स्थान पर रहीं, जबिक डीपीएस आरकेपुरम की लावण्या झा 97.40 फीसद अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर रहीं।

लगातार दूसरे साल दिल्ली से कोई नहीं रहा शीर्ष पर

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 26 मई।

सीबीएसई की ओर से जारी बारहवीं कक्षा के नतीजों में इस साल भी दिल्ली के किसी विद्यार्थी ने शीर्ष तीन स्थानों में से किसी पर भी जगह नहीं बनाई है। पिछले साल भी दिल्ली से शीर्ष स्थान पर कोई नहीं था। हालांकि क्षेत्रवार नतीजों में राष्ट्रीय राजधानी पिछले साल की तरह ही तीसरे स्थान पर है। दिल्ली में कुल 89 फीसद विद्यार्थी पास हए।

दिल्ली क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले इस साल 0.63 फीसद विद्यार्थी अधिक पास हए। इस साल पास फीसद 89 रहा जो 2017 में 88.37 था। इस साल दिल्ली के 242536 विद्यार्थियों ने बारहवीं की परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से 238964 विद्याथियों ने परीक्षा दी थी। इसमें से 213487 विद्यार्थी पास हए। देश में सबसे अच्छा परिणाम केरल के त्रिवेंद्रम का रहा, जहां 97.32 फीसद विद्यार्थी पाए हुए। इसके बाद 93.87 फीसद के साथ चेन्नई दूसरे स्थान पर रहा। इस साल विदेशी स्कूलों में विद्यार्थियों का पास फीसद 94.94 रहा, जोकि पिछले साल 92.02 फीसद था। इस साल विदेशी स्कूलों के जिसमें से 15674 ने परीक्षा दी थी। इनमें से 14881 विद्यार्थी पास हुए हैं।

15771 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था

एनसीआर ने जमाया रंग

अखिल भारतीय स्तर पर बारहवीं के नतीजों में पहले तीन स्थानों पर कुल नौ विद्यार्थी हैं, जिनमें से छह एनसीआर के शहरों से हैं। इनमें से भी तीन गाजियाबाद और दो नोएडा से हैं। पहले स्थान पर नोएडा की मेघना श्रीवास्तव और दूसरे स्थान पर गाजियाबाद की अनुष्का चंद्र रही हैं। नोएडा की सुप्रिया कौशिक, गाजियाबाद के नकुल गुप्ता, गाजियाबाद के ही क्षितिज आनंद और एनसीआर के हिस्से मेरठ की छात्रा अनन्या सिंह 497 अंक लाकर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे।

8.30 फीसद छात्र देंगे पूरक परीक्षा

बारहवीं की परीक्षा देने वाले 11884386 विद्यार्थियों में से 91818 को पुरक परीक्षा देनी होगी। बोर्ड जल्द ही पूरक परीक्षाओं के कार्यक्रम का एलान करेगा। दरअसल, ऐसे छात्र जो एक विषय में पास नहीं हो पाते हैं. बोर्ड उन्हें फिर से परीक्षा देकर पास होने का मौका देता है। इसको पूरक परीक्षा कहते हैं।

दिल्ली के स्कूलों ने भी दिए सौ फीसद नतीजे

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 26 मई।

दिल्ली के कई स्कूलों ने सीबीएसई के 12वीं बोर्ड में सौ प्रियदर्शनी विहार स्थित लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कुल, भारत पब्लिक स्कूल, कमल मॉडर्न पब्लिक स्कुल, वंदना इंटरनेशलन स्कूल आदि ने सौ फीसद नतीजे देने वाले स्कूलों में नाम दर्ज कराया है।

सेकेंडरी स्कूल के मेहल कुमार ने 97.75 फीसद अंक हासिल किए हैं। छवि मलिक ने बिजनेस स्टडीज में 100 फीसद अंक पाए हैं। यहां श्रुति नैय्यर को 96 फीसद अंक मिले हैं। इनके अलावा ईशान ने गणित में और वैभव ने अर्थशास्त्र में 99 फीसद अंक

लवली पब्लिक सीनियर

हासिल कर विषयवार टॉपरों में नाम दर्ज कराया है। यहां से आयुषी और शौम्या स्कूल की कॉमर्स अव्वल रही हैं। इसके अलावा राम विहार स्थित भारत पब्लिक स्कुल फीसद नतीजे दिए हैं। मसलन की विधि शर्मा कॉमर्स टॉपर बनी हैं। जबकि सौरभ सरकार ने मानविकी, गोल्डी मित्तल और दिव्यांशु जैन यहां से विज्ञान विषय में अव्वल बने हैं। स्कूल के प्राचार्य कवलजीत खुंगर के मताबिक अव्वल आने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा।

> समालका स्थित हीरा पब्लिक स्कुल ने इस साल सौ फीसद नतीजे दिए हैं। स्कूल के अध्यक्ष पवन वत्स ने इसका श्रेय स्कल के शिक्षकों और छात्रों को दिया। मोहनगार्डन स्थित कमल मॉर्डर्न पब्लिक स्कूल के पांच छात्रों ने स्कुल टॉपर में नाम दर्ज कराया है।

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, 26 मई।

सीबीएसई की बारहवीं में अव्वल रहीं मेघना श्रीवास्तव मनोविज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है। इसके लिए वह विदेश के विश्वविद्यालयों में पढाई के लिए आवेदन करेंगी। वह अपनी मेहनत से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता का कोई छिपा सुत्र नहीं है। लगातार कडी मेहनत करने से ही उन्हें यह कामयाबी मिली है। वह भविष्य में समाज सेवा करना चाहती हैं। मेघना सीबीआइ के पूर्व निदेशक अनिल सिन्हा की भतीजी हैं। सिन्हा ने बताया कि वह हमेशा से प्रतिभाशाली रही हैं।

मेघना ने कहा कि वह मनोविज्ञान में यनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से आगे पढ़ाई करना चाहती हैं। अर्थशास्त्र का पर्चा लीक होने के कारण दोबारा पेपर हुए थे। इस पर उन्होंने कहा कि शरुआत में फिर से परीक्षा होने की खबर बहत निराश करने वाली थी। मैं बहुत परेशान भी थी क्योंकि मेरा पहला पेपर काफी अच्छा हुआ था। जब दोबारा मैंने पेपर दिया तो वह भी काफी अच्छा गया। उन्होंने कहा कि

डीयू से मनोविज्ञान पढ़ना चाहती हैं लावण्या

सीबीएसई की बारहवीं कक्षा में दिव्यांग छात्रों की श्रेणी में 487 अंकों के साथ देश में तीसरे स्थान पर रहीं लावण्या झा दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम (एलएसआर) कॉलेज से मनोविज्ञान की पढाई करना चाहती हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरकेपुरम की छात्रा लावण्या ने बताया कि उन्होंने कभी ट्यूशन या कोचिंग सेंटर से पढ़ाई नहीं की है। परिणाम के समय वह पटना में थीं और वहीं उन्हें पता चला कि वे देश में तीसरे स्थान पर आई हैं। 🖣

पढ़ाई के दौरान होने वाले तनाव को दूर करने के लिए वह गाने सुनती थीं और बैडमिंटन खेलती थीं। लावण्या ने बताया कि वह घर से दूर एक छात्रावास में रही। जिस पाठ्यक्रम की पढ़ाई करना चाहती थीं, वह पटना में उपलब्ध नहीं था और इसी वजह से 11वीं और 12वीं की पढाई के लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ा। लावण्या 40 फीसद दृष्टिबाधित हैं और उन्हें 2014 में इस बारे में पता चला था। उन्होंने बताया कि वह अपनी परीक्षा के लिए तीन से चार घंटे पढ़ाई करती थीं। उनके पिता पटना में एक निजी बैंक में अधिकारी हैं और मां गृहिणी हैं।

जिस वक्त परिणाम आया मैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ नहीं देख रही थी। मेरे पापा ही मेरा परिणाम देख रहे थे और उन्होंने मझे बताया कि मैंने टॉप किया है। फिर मेरे दोस्तों के संदेश और स्कल शिक्षकों के फोन आने लगे। मुझे अच्छे परिणाम

लगातार कड़ी मेहनत से मिली कामयाबी: मेघना

की उम्मीद थी, लेकिन अव्वल आऊंगी ऐसा नहीं सोचा था। मेघना की मां अल्पना श्रीवास्तव गुरुग्राम की एक कंपनी में मानव संसाधन प्रमुख हैं। वहीं, पिता गौतम श्रीवास्तव मानव रचना विवि में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

केंद्रीय विद्यालयों के नतीजे रहे सबसे बेहतर

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 26 मई।

सीबीएसई बारहवीं के नतीजों में स्कूलों के लिहाज से सबसे अच्छा प्रदर्शन केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवी) का रहा। केंद्रीय विद्यालयों के 97.78 फीसद विद्यार्थी पास हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पिछले तीन सालों में केवी का सबसे अच्छा परिणाम रहा है।

केवीएस से मिली जानकारी के मृताबिक, इस साल उनके 68590 विद्यार्थियों ने बारहवीं की परीक्षा दी थी, जिसमें से 67064 विद्यार्थी पास हुए हैं। इनमें 34679 छात्र और 32385 छात्राएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, 95 फीसद या इससे अधिक अंक पाने वालों की संख्या 624 रही, जबिक 90 फीसद और इससे ज्यादा अंक पाने वालों की संख्या 4432 रही। पिछले साल केवीएस का परिणाम 95.86 फीसद, 2016 में 95.46 फीसद और 2015 में 94.75 फीसद रहा था। 924 केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी जिसमें से 487 विद्यालयों का परिणाम सौ फीसद रहा।

केवीएस के आयुक्त संतोष कुमार मल्ल ने इस सफलता के लिए केवीएस के अधिकारियों, प्राचार्यों, उपप्राचार्यों, शिक्षक और सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षकों ने ठंड और दशहरे की छट्टियों तक में अतिरिक्त कक्षाएं लीं और बच्चों के अभिभावकों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया।

चार साल में केंद्र सरकार ने लिए सिर्फ जनविरोधी फैसले: आप

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 26 मई।

आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा की अगुआई वाली केंद्र की राजग सरकार के चार साल की उपलब्धियों के दावे को नकारते हुए शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने बीते चार साल में सिर्फ जनविरोधी फैसले ही किए हैं।

आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने

पार्टी कार्यालय में शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि केंद्र की राजग सरकार ने चार साल में जितने फैसले किए वे पुरी तरह से जनविरोधी रहे। भाजपा ने जीएसटी और आधार का पहले विरोध किया, लेकिन केंद्र की सत्ता में आते ही उनको लागु कर दिया। भाजपा को उसके वादों की याद दिलाते हुए सिंह ने कहा कि विदेशों में जमा कालाधन वापस लाकर सभी देशवासियों के बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा करने, दो करोड़ लोगों को रोजगार देने, किसानों को फसल का डेढ़ गुना दाम दिलाने, महिला सुरक्षा, महंगाई से मुक्ति, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया. स्वच्छ भारत और हर परिवार को मकान देने जैसे वादे और दावे अब साल 2024 तक के लिए स्थगित हो गए हैं।

आप नेता ने कहा कि चार साल बाद देश के युवा अब तक रोजगार के लिए भटक रहे हैं और किसान फसल की डेढ़ गुना कीमत पाने के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेढ गुना कीमत तो छोड़िए, किसानों को मंदसौर की मंडी 🛾 हर व्यक्ति को कंगाल करने का काम किया है। 🛮 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली कांग्रेस ने मनाया

दिल्ली कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को 'विश्वासघात दिवस' मनाया। इस दौरान पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर सभी मोर्चों पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। भ्रष्टाचार, कालाधन, महिला सुरक्षा व रोजगार को लेकर इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बैंकों से जुड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, उससे लगता है कि लोगों के पैसे बैंकों में सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढाकर सरकार ने पैसा कमाया और कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया है, जबिक जनता परेशान है।

विश्वासघात दिवस

में एक और दो रुपए प्रति किलोग्राम कीमत पर लहसून बेचना पड़ रहा है और जान भी गंवानी पड़ रही है। सिंह ने कहा कि कालाधन वापस लाकर हर देशवासी को 15 लाख रुपए देने के वादे के उलट सरकार ने नोटबंदी कर देशवासियों की जो थोड़ी-बहुत जमा-पूंजी थी, उसे भी छीन लिया। उन्होंने कहा कि चार साल में केंद्र सरकार ने हर वर्ग को निराश करने और

पूर्व सैन्यकर्मी की पत्नी और बहन के साथ छेड़छाड़

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 26 मई।

भारतीय सेना के एक पूर्व कैप्टन की पत्नी व बहन के साथ छेडछाड का मामला सामने आया है। कैप्टन ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके विरोध करने पर आरोपियों ने हाथापाई की और बियर की खाली बोतलें सिर पर मारकर घायल कर दिया। हालांकि उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। अन्य युवक भी हिरासत में हैं।

द्वारका थाने में दर्ज शिकायत में पूर्व कैप्टन ने कहा है कि वे अपने परिवार के साथ शाम को द्वारका सेक्टर-12 स्थित सिटी सेंटर मॉल में खाना खाने गए थे। उनके साथ पत्नी, दो बेटियां, बहन और पत्नी का भाई भी था। इसी दौरान कैप्टन और उनके रिश्तेदार गाडी लेने के लिए पार्किंग में चले गए और परिवार के शेष सदस्य मॉल के बाहर खड़े थे। उसी दौरान सफेद रंग की स्कॉर्पियो वहां पहुंची और उसमें बैठे पांच लड़कों ने कैप्टन के परिवार की महिलाओं के साथ छेडछाड शरू कर दी। गाडी लेकर मौके पर पहुंचे पूर्व कैप्टन ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ हाथापाई की और खाली बियर की बोतल उनके सिर पर मारकर मौके से सभी फरार होने लगे। घायल अवस्था में पर्व कैप्टन ने एक आरोपी को पकड़ लिया। सूचना के बाद पहुंची द्वारका उत्तरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर अन्य

दो महीने तक छात्रा से बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 26 मई।

कोतवाली इलाके में एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी पडोस में ही रहता है और पिछले दो महीने से छात्रा के साथ बलात्कार कर रहा था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की छानबीन कर रही है। मुल रूप से बिहार की रहने वाली पीडिता कक्षा छह में पढती है और यहां अपने रिश्तेदार के साथ रहती है। फिलहाल नाबालिग को देखभाल करने के लिए एक एनजीओ के

पास भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, छात्रा दिल्ली के अंगुरी बाग इलाके में रहती है। उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है। उसके पिता की मौत उस वक्त हो गई थी, जब पीड़िता मात्र दो महीने की थी। इस कारण उसके चाचा-चाची उसे अपने साथ दिल्ली ले आए। मार्च में उसकी चाची किसी काम से बिहार में अपने गांव चली गई और पीड़िता को पड़ोस में रहने वाले लोगों के पास छोड गई। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने दो महीने पहले छात्रा के साथ बलात्कार किया। विरोध करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। परेशान छात्रा ने एक दिन अपनी सहेली को आपबीती बता दी, जिसके बाद को गिरफ्तार कर लिया।

बाड़ा हिंदू राव अस्पताल से चोरी हुई बच्ची

बाड़ा हिंदू राव अस्पताल से एक नवजात बच्ची चोरी होने का मामला सामने आया है। बच्ची को चुराने का आरोप वार्ड में ही भर्ती दूसरी महिला फिरदौस पर लगा है। शनिवार को हुई यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस आरोपी महिला की छानबीन कर रही है। जानकारी के मुताबिक, 22 मई को वजीरपुर की रहने वालीं रेशमा अस्पताल में भर्ती हुई थीं। उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया था। इसी वार्ड में मुस्तफाबाद की रहने वाली फिरदौस भी भर्ती थी। रेशमा ने बताया कि फिरदौस सुबह आठ बजे नर्सरी वार्ड में जांच के लिए ले जाने की बात कहकर उनकी बच्ची को ले गई थी। इसके बाद से वह फरार है। फिलहाल सब्जी मंडी थाना पुलिस ने अपहरण समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की छानबीन कर रही है।

इसकी जानकारी एक स्थानीय एनजीओ को दी गई। एनजीओ ने इस बारे में पुलिस को बताया जिसके बाद छात्रा का मेडिकल कराया गया बलात्कार की पृष्टि होने के बाद पृलिस ने आरोपी

विष्णु प्रभाकर सम्मान का किया गया एलान

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 26 मई।

गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा और विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान द्वारा संचालित सन्निधि संगोष्ठी की ओर से विष्णु प्रभाकर सम्मान समारोह का आयोजन 23 जून को गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के सभागार में किया जाएगा। इस बार साहित्य के लिए साहित्य अकादेमी दिल्ली के कुमार अनुपम, पत्रकारिता के लिए दिल्ली की नाज खान, समाजसेवा के लिए केरल के अनीस कुमार, कला के लिए दिल्ली की प्रतिभा सिंह और शिक्षा के लिए चंपारण कस्तूरबा बालिका विद्यालय के प्राचार्य दीपेंद्र वाजपेयी को चुना गया है। वहीं विष्णु प्रभाकर विशिष्ट सम्मान के लिए वरिष्ठ समाजसेवी अजय सहाय को चुना गया है

आज के कार्यक्रम

श्रीधरनी गैलरी : वायु प्रदूषण पर सामृहिक कला प्रदर्शनी 'ग्रे' का प्रदर्शन, श्रीधरनी गैलरी, त्रिवेणी कला संगम , 205 तानसेन मार्ग, सुबह 11 बजे से, २ जून तक।

इंडिया हैबिटाट सेंटर : हैबिटाट फिल्म महोत्सव और कार्यशाला, हैबिटाट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटाट सेंटर, लोधी रोड, सुबह साढ़े दस बजे।

CIN: L15133UR1990PLC023970 **रजिस्टर्ड ऑफिस**ः लाल टप्पर इंडरिट्यल एरिया, पी.ओ. रेशम मजरी, हरिद्वार रोड देहराद्न (उत्त.)

फोन : 0135-2499234, फैक्स : 0135-2499235, वेबसाइट : www.flexfoodsltd.com, ईमेल : flexsec@vsnl.net

c	31.03.2018 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के	दौरान ३	प्रकक्षित ।	वेत्तीय प	रेणाम	(₹ लाखों
क्र0 सं0	विवरण	31.03.2018 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31.12.2017 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	31.03.2017 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)	31.03.20 को समाप वर्ष (अंकेक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय	2345	2247	2515	9352	870
2.	कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि)	291	232	662	1069	112
3.	कर पश्चात् शुद्ध लाम / (हानि)	177	138	431	681	78
4.	कुल व्यापक आय (शामिल लाभ / हानि) कर पश्चात और अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर आय))	155	138	418	659	77
5.	समतुल्य अंश पूंजी (एफवी ₹10/- प्रत्येक)	1245	1245	1245	1245	124
6.	अन्य इक्विटी, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त 31 मार्च 2018 के तुलन पत्र के अनुसार	2204301	3/30/3/3	5,33008	6650	636
7.	इस अवधि के लिए आय प्रति शेयर (एफवी ₹10/- प्रति शेयर)					
	मूल	1.42	1.11	3.46	5.47	6.3
200	तरल	1.42	1.11	3.46	5.47	6.3

 उपरोक्त विवरण भारतीय प्रतिभृति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015, दिनांक 5 जुलाई 2016 को संशोधित परिपन्न संख्या सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016 के अनुसार, के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए तिमाही के वित्तिय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारकित अंश है। 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के वित्तिय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइ www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.flexfoodsltd.com पर उपलब्ध है।

 खंडीय विवरण लाग् नहीं है क्योंकि यहां केवल एक खण्ड विवरण लायक है। जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व वर्ष / अविध के आंकड़ों को पुनः वर्गवद्ध / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

 आडिट कमेटी द्वारा वित्तीय परिणामों की समीक्षा की गई है तथा बाद में 26 मई, 2018 को आयोजित बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर अभिलेख में लिए गये है। वित्तीय परिणामों की कंपनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई है। फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड के लिए

स्थान : नोएडा दिनांक : 26.05.2018 (अशोक चतुर्वेदी) DIN - 00023452

विधायक कोष से खर्च के लिए दिशानिर्देश जारी

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 26 मई।

दिल्ली सरकार ने सभी निर्माण एजंसियों को दिशानिर्देश जारी किया है कि काम का आकलन और प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत तैयार करें। शहरी विकास विभाग ने नगर निकायों, सिंचाई व बाढ नियंत्रण विभाग और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य एजंसियों से कहा है कि दिशानिर्देशों का कडाई से पालन करें ताकि प्रस्तावों की जांच-परख में विलंब से बचा जा सके।

दिल्ली विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पास करने के करीब दो महीने बाद यह पहल की गई है जिसमें सरकार से कहा गया था कि एमएलए लैंड्स कोष के तहत कामकाज के लिए कड़े दिशानिर्देश बनाए जाएं। अप्रैल में पारित प्रस्ताव में कहा गया था कि विधायकों ने शिकायत की कि योजना के तहत परियोजनाओं में एमसीडी जान-बूझकर विलंब करता है। सनद रहे कि दिल्ली में एक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को करने के लिए हर साल चार करोड़ रुपए मिलते हैं।

निगरानी समिति के नोडल अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 26 मई।

अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटाने के बाबत सप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति की ओर से बनाए गए पूर्वी दिल्ली निगम के नोडल अधिकारी डीपीएस तोमर पर एक महिला ने पहले छेड़छाड़ का आरोप लगाया और बाद में हमला कर दिया। मौके पर मौजूद तोमर किसी तरह बीच-बचाव के बाद अपनी सरकारी गाड़ी से वहां से निकल गए। महिला और तोमर दोनों ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

निगम के नोडल अधिकारी और निगम आयुक्त डॉ रणवीर सिंह के ओएसडी डीपीएस तोमर का कहना है कि आनंद विहार बस अड़े के पास भारी संख्या में अवैध रेहड़ी और पटरी होते हैं। इससे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति की देखरेख में उन्हें नोडल अधिकारी बनाकर ऐसे अभियान को देखने का निर्देश मिला है। लोगों

की जीविका प्रभावित नहीं हो और कोर्ट का निर्देश का पालन हो इस बाबत निगम ने यहां करीब 122 लोगों को रेहडी भी अधिकृत किया है। तोमर का कहना है कि वे मंगलवार को अवैध कब्जे को यहां से हटाने के निर्देश दिया। बुधवार को जब वे दोबारा जगह को देखने गए तो अचानक एक महिला आई और शौचालय का निरीक्षण के नाम पर उनपर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए भड़क गई।

उनका कहना है कि शौचालय को लेकर काफी शिकायतें मिल रही थीं। इस वजह से उन्होंने कर्मचारियों को फटकार भी लगाई थी। जब वे निरीक्षण कर लौट रहे थे तो शौचालय के अंदर से आई महिला उन पर छेडछाड का आरोप लगा कर हंगामा करने लगी। पीछे-पीछे वहां एक दिव्यांग व्यक्ति भी आ गया और वे लोग शोर मचाते हुए अपनी चप्पल खोलकर उनके ऊपर हमले की कोशिश की। संयोग से उनके साथ गए कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर उन्हें गाडी में बैठाकर वहां से जाने कहा।

एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन को लेकर सुरक्षा इंतजाम सख्त

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 26 मई।

सरायकाले खां से मेरठ तक एक्सप्रेस-वे के रविवार को होने वाले उद्घाटन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इस कार्यक्रम के लिए एसपीजी के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा दस्ते में शामिल पुलिस, पूर्वी जिले और दिल्ली यातायात पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है।

सुरक्षा अभ्यास के दौरान शनिवार को सैकडों की संख्या में पुलिसकर्मी अक्षरधाम से गाजीपुर तक की दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा तक बंदोबस्त में लगे रहे। उधर पूर्वी दिल्ली के मेयर ने निगम के आला अधिकारियों के साथ मिलकर इस बाबत एक बैठक कर सुरक्षा के बंदोबस्त का जायजा लिया।